

REGD. OFFICE & FACTORY: KM 25/4, KALPI ROAD, RANIA, KANPUR DEHAT - 209 304 U.P. (INDIA) Tele Office: +91-5111-240212, 240213 • Fax: +91-5111-240214

CORPORATE OFFICE: E-14, PANKI INDUSTRIAL AREA, SITE-I, KANPUR - 208 022 U.P. (INDIA)

Tel. No.: 0512-2691207, 2691208

e-mail: info@frontiersprings.co.in • Website: http://www.frontiersprings.co.in

CIN No.: L17119UP1981PLC005212

May 30, 2018

To Bombay Stock Exchange Limited Department of Corporate Affairs Floor 25, PJ Towers, Dalal Street Mumbai-400001 Script Code: 522195

Subject: Submission of newspaper publication of Audited Financial Results for the quarter and Financial year ended March 31,2018

Dear Sir/Madam

Pursuant to Regulation 30(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations2015, please find enclosed herewith copies of newspaper publication published yesterday i.e 29.05.2018 pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Kindly take the above on record and oblige.

Thanking You Yours Faithfully,

Frontier Springs Limited

many Secretary)

Encl's: As above

Show Bhasin



Mumbai set for next BKC of the back office world

Oshiwara District Centre, the emerging commercial business district, has the advantage of connectivity, supporting growth area of Andheri and new office supply

Mumbai, 28 May

How does a developer create the city's next business district? For starters, Mumbai, toughest market in Indian real estate, has traffic clogging its road arteries. There is cut-throat competition for land. Most of all, it requires a contrarian strain to decide on investing tens of billions in a futuristic play for something that might take years to pull off.

Kamal Khetan, Chairman and Managing Director of Sunteck Realty, which built super luxury homes in the commercial business district (CBD) of ft of BFSI (banking, financial services Kurla Complex, says, "Connectivity to the island, supporting infrastructure and location are the three under construction. Until they are commust-haves, before anything else." He cites Belapur as an example of a planned CBD which failed to take off because of lack of connectivity to Mumbai.

Khetan has acquired 23 acres in the 160-acre plot deemed as the Oshiwara District Centre (ODC) by the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) because of expected infrastructural changes — a flyover connecting the area to the developed suburb of Powai, a highway, a railway station, and two metro rail stations.

Specifically, these include the opera-

to Western Express Highway and Powai. Also, the Ram Mandir station on the western railway line (already operational) and nearby upcoming Metro rail stati ons that include Metro 7 line (Dahisar East to Andheri East) - Aarey and Mahan and stations and Metro 2A line (Dahisar to DN Nagar stretch) or the Adarsh Nagar station.

Karan Sodhi, managing director in JLL India's Mumbai office, says it will take a few years for the ODC to become an established centre . For 1.2 million sq and insurance) captive back offices at Nesco and 1.1 million sq ft at Nirlon are plete, the ODC won't be ready. "What does have potential is the mini-campus model which Sunteck is developing and offering mixed facility usage," Sodhi says, adding that in the next decade the ODC will be a mature business location. However, the potential for residential development is higher because of private projects being executed by developers.

Principal architect Yamsanwar of Team One Architects, who has executed government projects for four decades, says: "The ODC in par-

tional Jogeshwari-Vikhroli Link Road ticular is a viable bet for residential proj-(JVLR) flyover that connects ODC ects because of nearby growth centres such as Andheri." But for overall readiness of a CBD, it requires last-mile government push, which one can't time or

While Khetan says his residences will be ready in a year and a half or so, he acknowledges it takes a minimum of a decade for any business district to fully mature. "BKC took around 15 years to get to where it is now. But if anyone saw it back in the day they wouldn't have thought it is possible," he says.

Other developers RNA and Universal Group have also set up residential buildings. Sunteck is architecturing a minicampus akin to what Hiranandani has done in Powai and Lokhandwala in Versova. That's happening by creating residential, commercial and entertainment zones, fine dining, malls and high street retail, Khetan says.

Residential prices in ODC are currently around ₹15,000 per sq ft, cheaper irrelevant," Khetan adds. than Andheri West. "There are large corporations with big back offices in Goregaon but not enough residential complexes with modern facilities," Khetan says. Citibank, Standard Chartered and Kotak Mahindra all have primary offices in BKC, while their back

plexes of Nirlon, Nesco, Mindspace and Infinity IT Park.

Gulam Zia, executive director at Knight Frank, says there is plenty of land across Mumbai but what finally determines the success of a business district is two things:.the facilities that come together in a pocket of land, and the level of support from the government in allowing and making that happen.

History shows such plans have materialised. Neeraj Sharma, director at Grant Thornton, says BKC and DLF-Cybercity in Gurgaon are good examples of government planning along with private participation.

Does the size of a land parcel play into the rate of success for a CBD? BKC, for example, stretches across almost 900 acres. Sharma says in Indian cities, especially Mumbai, a couple of hundred acres or so is sufficient. "The right amount, as in acreage of land too is vital but if it's too far out from the city centre, it becomes

Sharma adds that in most districts the heart of the action - business or residential - is developed on 150 acres or so. "Look at Hong Kong and it's clear that size is not so important. It's to do with smart future planning and delivering what residents need, to work, live and offices are in the Goregaon-Malad com- play and in," he says. That's the future.



BUILDING BLOCKS

FUTURE DISTRICTS

- Oshiwara District Centre
- Project (Colaba to Wadala)
- Wadala

THE FORMULA FOR A CBD

- infrastructure
- Flexibility of remoulding
- Balancing environmental safety concerns Source: JLL, Knight Frank.

CBSE Class X results to be out today

The Central Board of Secondary Education (CBSE) on Monday announced that the results of Class 10 examinations will be declared on Tuesday.

"The results will be declared on May 29 at 4 pm," an official from the CBSE said.

The board exams were marred by controversy this year with question paper leaks being reported from Delhi-Haryana and Jharkhand of Class 10 mathematics paper.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda www.bankofbaroda.co.in India's International Bank

Bank of Baroda invites responses to RFP for Selection of Qualified Security Assessor (QSA) for Payment Card Industry-Data Security Standard (PCI-DSS) Certification Services.

Details are available under 'Tenders section' on Bank's website: www.bankofbaroda.co.in and also available on www.tenders.gov.in

Addendum, if any shall be issued on Bank's website under 'Tenders section' and on www.tenders.gov.in. Bidder should refer to same before final submission of the proposal.

Last date for submission of RFP Response - 25th June 2018 up to 15:00 hrs IST. Place: Mumbai

Deputy General Manager (Chief Information Security Officer)



Dombivili-Kalyan Axis

Vikhroli- Mulund Axis Eastern-Waterfront

> Sizeable acreage to support internal

- City connectivity that translates to a comfortable commute
- Proximity to key residential pockets for work force
- with changing times
- Sunteck's project at Oshiwara District Centre







Insight Out

To book your copy, call 022 24978470 or SMS reachbs to 56677 or email us at order@bsmail.in

f bsindla 💟 bsindla



Regd. Off.: KM 25/4 Kalpi Road Rania ,Kanpur- Dehat. 209304 CIN: L17119UP1981PLC005212 E-mail: c.s@frontiersprings.co.in, Website: http://www.frontiersprings.co.in Tel. No. 05111-240212-213, 0512-2691207-08, Fax No. 0512-2691209, Mob.9792989548



EXTRACT OF AUDITED STANDLONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

(Rs. in lakhs, except per share data)						
SI. NO.	Particulars	Quarter Ending 31st March, 2018	Year to date figures 31st March, 2018	Corresponding 3 months ended in the previous year 31st March, 2017		
		(Unaudited)		(Unaudited)		
1.	Total income from operations (net)	1723.42	5948.42	1339.80		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	146.3	494.21	122.34		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	157.77	549.44	130.89		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	60.14	356.32	144.49		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	60.14	356.32	144.49		
6	Equity Share Capital	396.32	396.32	396.32		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	2575.08	-		
8	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)					
	(a) Basic (Rs.)	1.53	9.05	3.67		
	(a) Diluted (Rs.)	1.53	9.05	3.67		
NOT	NOTES:					

Place :- Kanpur Date:- 28.05.2018

1. The above is extract of the detailed format of the Unaudited Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Financial results are available on the Company's website www.frontiersprings.co. in and on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com

> For and on behalf of the Board of Directors (K.L.Bhatia) Chairman cum Mng. Director DIN: 00581799

विरुवार्थ में प्रातीका से मुक्ताकात

प्तार जांचीन एक अधने नाम दर्ज

क्षापाने की मांग की



काम परेशान हो सवाता है, पश्चतित नहीं। साथ यह है कि कर्माटक की जनता ने कांग्रेस को ब्रेटिनी से 7 लाख बोट ज्याव क्रिके ही।

------ चंत्रय विकास

नगर में आज

प्राप्त ११ पर्गे- गुल्लवून से चील

with plops gay saided ones an

Son 12 Will- regresse referrer

effer stree it sweenshiese office.

विकास अस्ति-असील वहसील प्राप्त असर.

a polite undere fi tel puretti

which were fitter wit given follow no

हिल ५ अमे- शामांच्ये चौराता चीचता.

were filter will gree fillfile tit, origitet

अग्रेस अपने- विकार तथा आग्रास्थल

🗰 दिल ३ को- राजन बंगरण अपि देश

चीत के स्त्रीत राष्ट्रिय समाप रहेता

seri 5.15. Wh-. wgr. Wese.

presente d'us àblirs warders: il reli-

the prompts offers at spops

epst 6,300 with stabilities reporter.

A diseptation term an arrival

stoon go aforest embe.

OMITS 1275172

seed \$ percent

लेकातन की पुष्टाकीत करत

Dates states and warmings.

THE CH

1975 में अधिग्रहीत भूमि का आज तक कब्जा नहीं लिया



often at some Mil Desert

शराब के लिए परिजर्ने ने डांटा

तो देन से कटकर जान दी

temples wave weren we a special first this such

seem with wit one tog well of, Familie

and other 1th women't tall his

effect to all al feath acre than

ages of providing of the five high site

दिन्छ । प्रोत्तरपार सुनवा कर परिचन जीवार उत्ते

के विकास को यह में नहीं पाना। कोड़ी देर

men ber werdt to Bank mene gere for it.

भारतका जान है हैने भी स्ट्रेजन का परिचन

चीके पर महाने से अर्थ निकास पर पहा था।

their gas over sects in their when these

to the second will be former with the

rgfiere fe une decemble le Sine fen Son i

1904-1909/1999/10/9-121

18 for maller occoc.ac.coc

करते हेतु कर्मकार्त प्रतस्य कर हो अलेगे ।

कार्यालय छावनी परिषद, कानपुर

scit. 261 to tell it. 605/610/10 forgressia street wareje fiz solligen

स्वतित वर्त बहुत अवैतीकरण हेतु औ बीचित कुमार महात पुत्र तम, बाद पहल

पाएक में विज्ञांक - 16.03 3016 फो पानीब पता विशेश विज्ञा है : इसके समावन्त से

प्राचीरे अपने पत्र पूर्व दिशा के पूज् प्रमाणक तथा तत्रकारक दिश्रास्त 08.03.20% भी प्रेरेश दिश्रा है जिसमें प्राचीरे अपने तिल भी पूज् दिश्यास

रेतो अर्जाकरों में जो कि इस शर्मात के प्रकार अपना भी तक परवाले हैं, अपने

अवश्रीमध्ये प्रचा प्रमाणक मोरे विशेष हो ३३ दिन के अन्तर प्रच शहरू न्यातकोज के

बार्यालय प्राच्यारे परिषद माराष्ट्रत में एडिवान कर राक्ष्त्रे हैं, आपका प्रकारक

सबात पर उसा अर्थनार्थों पर यह उसीका सामधेलों के अपना पर अवित

(mist gesu)

yea afternit afterth, work after, waryr

Newbyr is universe for rebill it ease forget when got 1025 if infreshe wh est विशालों को चुनि पर विकास ने अहार कहा. जारीनों पर कामत नहीं तिएका किरावर अहार www set feets

meller Servel h संभवत को प्रतिपत th Fernant service it frames that अस्ति साम पर पुरः एवं बार्सने भी चंत्र भी।

Responder Frank

spiles green we obvious

nituralis in forms spone

ना। इसी के मानो भी 2009

it milk afteren als

serve le Serdick il 35

Scenif us ufstefotym shirt विशासन मीचर्च के कैंगर ताले रहाईएस प्aroughts facett finte 4b filore afte person fore a new finally: according to the factority

watery, (represent) a namenge for it waste for statistical eart forger of the fi 1975 il uru florityr erfen ved urill vib with offende with it we use me

> ne and with m dieb un ebil : peliet femili will reside the report भी गुरी राज्य जिल्ला der eine som ficht

वर्ष के जार शहकार पुत्र विशालों के लाग कर tick self; schelele etgen ill asobia fine the, trees filte, tribn spare, ordinates अवसर्व, रावेश न्यानीची प्रमुख करा है।

नाले के टेंडर में एक ही ठेकेदार कैसे दें उसको नगर निगम ठेका

में भारत न्यूज व्यूते

MINISTER I

20 मार्ट तथा मोट ताली भी सामार्ट बा बान पूरा बीन्य नीवियन एवंद की डिवार अवनि के बाहरू space the ray \$1 and start in feet बनर विकास की बात दिवर प्रविश्व बार जुना है। month with sample work it you at bilance की बार समारे तका है।

rest action white wast and h reference forms set fulfiller form on fin. True il rosc at tributes in unit de vapen and in Indiference work storf wit storal शुक्त करकारे । तसर अपनुष्या का आर्थात काम to fireme it after if office place mouse बो को (-रेप्टर स्वकान में बार से बार तेन देश अरुप अपन्यास्त्र है। को देश वैदि के sorrer was flower on solid sit offenced: and not similar to the of \$1 from year severa its were finest for aeffecteth after and one Streement who spherk it sub it. Small they it flavor blivage for such me foldforer as govern it riden one from all wild of femoreté so-bres eff Seeft & classic warm well wit want we spring that marks.

भारतिक रहे परावाल भार पहाले और गाले के ther are in officer ow at bilance then it serie i wobie over entitie spoli dispute with for the stars of Affair for you di blance for plant 4 other puts

wer from its three its segree 20 मुर्त तथा शहर के राज्ये को माने साथ सेने हैं। भीशन किरता में 22 जून तक शता में भारतात that more wed hi

was finns un infinciare favore qui मोतर से ज्यादा भी है जानों भी समार्थ भारता है। क्विंद एक फेल से बन बीटे को बी strend with the see see seemed forces with \$1

all well all must be fire our रियान भी नीता प्राचार पामपूरी भी आपनामनाता है। सम्बद्ध बताने बतने सम्बद्धी के हिकाहर की were fivon 2:52 work safelies. Se firmes in मनतुर्त कि है। 252 मनतुर्त में इस कर्न में blaced all speck will fam ck it ; got rates it area blance med all mond in that referre it were not in nor it i

उचित दर राशन

विक्रेगओं की सिटी

मजिस्ट्रेट से वार्ता विपरल

som men foken ufrer alt refine

north for Flergre suff exter suft virsus: source

Falon uthines worth open to

if a segment will reverse worth the first

some it find whole we fegure

Fairer a rody rends filmore diffe fair seilern.

one over fakes where is

anguage if on an of th arbitrary

works again on all \$1 against

wit ergres worth in Feet Eleveriousti.

splic field: It Stock self-cody; diving Stock

werden't ground term shows

भी मानत रोवान केना । विद्यो प्रतिकट्टिट

it referre its request wit amountment

दिया कि उसकी मारे जल्द मानी करेगी।

per us uffect he wer assess when

fiché u fave soffice selu you

कर कर की पूर्व की रोपे कर कर

सप्रकार जारी एडिये। इसके मानो मानो

rate refree mend it was fer

de ness need get a

February of Helba

of world from term there it

हा सरका जीज जीव

unidows such its

MOTOR I

सक्षिप्त (प्रहरे

केरीए ने गई गाह में 50 लाख की रिकार्ड कम्पातिंग की

seasoge a liveley it not one it feweral. बाग्यादिन हान्य भी मनुनी भी है। पूरे seen if no result with screenfilm service. segre it; legic proving about segment it were for facult seen. Audio it went filte gover if of your If the larling work mayor was the rave licing one it likely it with no remain of boot to 5 year area for politi sees for per fording out any resear manage with our works womenfilm aprile arobit fitted in the Andre segret il s

लोडर की टक्कर में पूर्व एक्टरोर्च कर्मी की मीत

स्वयन्त्र । क्षेत्रस्य धारा क्षेत्र के अगास Sause strept of freed level fire (55) It sparshed it self-low. र्शन्तिकृत है। अर्थका में यह दादानार from the fought it was with it a efage son at on fragt it in offe th it, not these beam fire system के राजनी जनी तक तेल राजार स्वेदार है। passe on di mass soni è anni fitte shifts was it speen if oils it, fam. or pileow find assesses it will अराय कर था सेशवर एक्ट उनका के बीचन प्राप्ति बीच के रहते।

अधिक विशेषको ने प्राथमार कर बकाओं के भरे वचने

searege a revolts wit doe it femme the free weather intowing on some entwort speciall for teigh wit a gold species क्षेत्रस्य में को कार भी व अस्य सहित्य name all the week names name for fines. into our if your property and debased arefrin you however far weather History great it street lies, not गमानी का निर्मालन किया। इस स्टेशन listifies done, Inc. door, relyet बीताल कि मुंकी और । इसी प्रकार जीवनत Sean world liftpoor rife if one. retrect States 4 Stocks over Ferring! wer from excest lifes would it. special as yet object withhile मही एकीर करने केहर कर्नानों मैंकरी केह स्थाने भार भार प्रतंत्र के जिल्हा प्रतीत प्रकार के जे

(transmits

वकील ने व्यापारी के 33 लाख हड़पे

भागपुर (एकाएमकी) । बाजारेप बार केर if the past it should got care this to samely (transpools) a sorete sorth de fint that antiquent it stic life to upon stress for he work ofcours. seport if 33 years well obser eyn field; we wer work up all जान है थी। स्वयंत्र पर पहुंचे परिचारों ने प्रशासी male in Nevels no differs regrete it aufference its Reporter Strind and word it field in my afferows worth all sedient it no its जिल्हाका भी अर्थेर पुलिस भी स्टब्स से । warante new des le visites vers चीदित भी पार्टनकर पर राजकारकों ने उन्हें गुरुका मुलेक भारतकों है । सोमानंतर front others for the front cash all veret and speak if accommode all were lift;

> Office & Dropoli Pridd. अर्थियो हे युव वार्यक्षित्रक

> ताड़ी सुरात में गताड़ी देने south takes materials

> > TORN-28-25-3216

versa work field a work with the den affirmer it spilet wit ten ich we assesse firm i went-For any of one more self firm at update it with self-i coffermen it ent which it pours an firm on uplies it as set 2000 with specta it field and word : field and it's latest specia agrees व्यक्तिहरू मुक्तेय भी असरना में पहुंच गया। असीची महेनवर्तन ने समीन त्व राज्यात बाता होते का एका प्रत्या तथ की बाजी ही कि बीट

were were a firm of war is see at Addit a wood from the value age from the specific samples the udient wit med some is sylve wit mome offens are कुरेना बरा दिना। इसी के बाली strong wit system solder for सारी में अस्टाला पहुंचा अब per spech selt special special बाद में कुमारि भी क्वी है।

वकील के खिलाफ 20 लाख रुपये रंगदारी मांगने की रिपोर्ट दर्ज

wrests of it ou very point it the wider in figures the roog woll dwest spirit, would bit after there there it embress and as pin an else

पुरिता वोशी क्षेत्री पात्री कि बीध स्कूल को क्षेत्रपट वालवा # Stone

wit surreits with our est it. cate we from your areafiles finenti espe bisch

they with we wome out worse.

if a reference we worse if the shift.

कर्त के बीच एक स्कूतन की लेका

Nest were It. Soole work

Britist and worsh with it, reports

wouchs so't if used are freed suchs from and in Races the very woll recoll strik, ensel ich alle ferega 'et anneverer, andreves und iet sebn and year if prove the the and all this et worm it i was able often we were it for write our more le riverne il ; prik uft factre le div survi ut river. Former vern con II. Fleenis: worth shift rose spirit are another saverby emph celt it : pelt flavor: le: work seste h flavore. le figure trité est word é, spoit ut sombs ut le

मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व अध्यक्ष को पीटा

व्यानपुर (रह्मात्वारी) । प्राप्त प्रदेश अस्पातंत्राम्ब आगेल को पूर्व प्रदान म प्राप्त नेनी गीतान रेबिनन सिंह के की यह बोजका है। हाम पहुंचा में लगे काने से महीरों ने हरिवर के बानी क्षमान कर दिएक। दोनों अपूर्वती ने साथ नेती के की भी राज अर्थर पानारों के पीएकर संबोद साथ में परपान बार दिरव । स्टूबन पर पुलिस महिंद पर पहुंची, शेकिन तब करा अतरियी चार पूर्वर में 1 पीड़िया में आहे में सक्तीर की है। पात्रका मुख्याका जिल्हा कुछ जिलेहा कर पूर्व अरम्बाह की रह पांचर हैं।

remitelt freed over hit down tifteen liter yn asventigene aerdre nit yn रक्षाराम राज पुन्नो से १ प्रकार केटा अराजीय विशेष मुख्यायम विशेष पून जिल्हेड का पूर्व अरमान एवं पुनेत हैं। श्रीमध्या राम को अपनीप पर के बाहर जा रहा था, रुप्ते महील में रहने करने श्रवीवर्धनमन कीर उसलेंद्र बार्ड करवीन में उस पर करवा डिम्फर्स बार थें। अवनीय के निर्माण बारने पर सीती बाई तमें लोगे को राह और पाकर से पोर्टर लगे। कीख-पुकार शुक्कर अवलोध के परिचन पर तो जिलान आहे और प्रमानानी को लानकार से यह चंदर विकास सुवन पर न्यान्तरीकी चुलित वर्षिक पर पहुंच मधी और पापन अवशेष बंदे बंदरे ले उनके। बंदे में बोदों है। में सीबाईरे राष्ट्र भागीबार्त चर्चन गर्न और आदेशियों भी निरम्कार्त भी मांग भी तीमा ईपान्य भारते रात्रे । women goe sweeper itse giften it differ wit moths so finitel and war ambitrali wit some

शुकुल के बताये मार्ग पर चलने का लिया संकल्प

कारतपुर (स्थाप्तवर्वी) । राज्य union store store in replication is secure if the leading erve sine fefamente enifera una li ambiler ecatelle une il ne, रीएन शुक्रान के जाता वर्ग पर जानी we steere frem i gee after to when he gathe seaware splan sound it was fix gwee eren weballt it in neber it :

webset yek byen if yel new best pape to boson scores wondow in Erlans पाना भाग एवं नेता के सामान राज्य and after our energy for defluction

Remark its first suprae storf favor on finesses worker) प्रकार सर्वेत्र अरुको रहेता । इस अरुकार पर अरुको अर्थिता, जिला, सूत्रत दिनेही, प्रशासक, अरुक प्रवास आहेर थे।



trian given final, which greatives, with trees from, where

earn steam Limito AG 6641 eten nilitari nasan int 2007, Limito AG 6042 eten 207 95501 TH 3006, LP70 AG DASS CTICL 207 STREET TH 2006, LP70 AG DASS CTICL 207 91901 PF 2006, UPTO AG GASZ ETST 207 PERIO PF 2006, UPTO AG GASS STITI 207 WHEN OF JOOK, LIPTO D. BITT STIT STR. WHEN OF THOS, LIPTO AG OTHE WHEN unite (their miglious) make of 2010, of Proviou villar on Star was it. Some नीजानी तिरु दर-५०-३६१व को कडियो मुख्यालक, नेती, इत्तरकारक में आर. ११,०० कते से और उत्तरेगी। बोली जगाने से इस्तुक व्यक्ति को १०,०००-६० वीजानी शरिती से पात व्यक्ति से पत्त में उत्तर सरका होगा। व्यक्ति को जिल्हें भी क्षेत्री को त्यीकृत अवदा अवस्थित समा an adham ann dima

-oftend Styffer-

रार्गसामान्य को सुनित किया जाता है कि 42 प्रतिनी पीएली निर्म, इत्यासका के प्रावर्थन

WM. 128427 Pt. 2629-2016 mmmt i www.upgirr.nic.in

derestas 42 साहिती पीएची नेती, हाराहासाय

Frontier Springs Ltd.

Regd. Off.: KM 25/4 Kalpi Road Rania ,Kanpur- Dehat. 209304 CIN: L17119UP1981PLC005212 E-mail: c.s@frontiersprings.co.in, Website: http:/www.frontiersprings.co.in Tel. No. 05111-240212-213, 0512-2691207-08, Fax No. 0512-2691209, Mob.9792989548







		in lakhs, exce	pt per share data	
SI. No.	Particulars	Quarter Ending 31st March, 2018	Year to date figures 31st March, 2018	Corresponding 3 months ended in the previous year 31st March, 2017
		(Unaudited)		(Unaudited)
1.	Total income from operations (net)	1723.42	5948.42	1339.80
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	146.3	494.21	122.34
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	157.77	549.44	130.89
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	60.14	356.32	144.49
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	60.14	356.32	144.49
6	Equity Share Capital	396.32	396.32	396.32
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	2575.08	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)			
	(a) Basic (Rs.)	1.53	9.05	3.67
	(a) Diluted (Rs.)	1.53	9.05	3.67

1. The above is extract of the detailed format of the Unaudited Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Financial results are available on the Company's website www.frontiersprings.co. in and on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com

For and on behalf of the Board of Directors (K.L.Bhatia) Chairman cum Mng. Director DIN: 00581799

दुकान व मकान से हजारों की चोरी

भारतपुर (एक्सपुर्वा))। वर्ग नाम तेत्र के मान्य विदार में सेन्यान पुनात म प्राति गुरे सबाल से फोर्ट ने हानाटे बढ़ पाल पर बर दिया।

वाली का पुराब रिकारी राजीका पहला की सबना विद्वार में तेना रेल्फिकीय के सुनत से

मीबदाल की पुकार है । एकार से फुंद्र उनके से कानों को है। सीववर रेट शाम काने का साल सेंद्र कर पुने कीर्र में शासकार सेंद्र कीरी काने के बाद सावाने के साले उससे उससे सार्ट कुबरन में पूरा गर। और कुबरन से 50 जातर राजी भीवत के कीवहरत न 25 जनत स्मार कीते. बार तो राष्ट्र। सोधाबार शुबंह पुबरार पहुंचे पातिका ने मारते व केबदान राजन देख सी तावा पर पुलिस को सुवास हो। मेकि पर पहुंची प्रारमी सहाव एवीना लागी व बार्ट इंग्रीबटर संक्षेत्र सिंह mate true foled end we of the

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी–उन्नाव

पत्रांच 456-60 / वि.चर.स. / कोटेशन / निविद्य / 2018-18

दिग्तंक 28 मई 2018 නාපෙන්නේන්න් නිත්තය පුලනේ

निर्माणक पत्र संस्था की-356 दिलांक 14 मई 2018 से अनुमालन में प्रत्यपद-प्रानात में worther with financial statement of the control of नवाबराज, पुरवा, फ्रिलीजी, सुमेरपुर, बीधापुर, शिवान्दरपुर कर्ग, शिवान्दरपुर शिकेशी मूल 11 बाज विकास परियोजनाओं के लिए एक-एक बाहन शासकीय कार्य के लिए अपयोग होते कुछ 11 पहल प्रधा-कुलेचे व शासकीय अधिकारियों केंद्र प्रपत्नका अन्य बाहन कियार पर तिए जाने भी आवश्यकता है। किराए पर निए जाने बाला प्रजान देखरी परिपोर्टर होना अनिवार्त है। निर्देशालक के निर्देशानुसार प्राप्तक बाहल के जिए फ. 250 लाख (वी लाख प्रमास हचार मात्र) एक वर्ष हेतु धनतारि निर्धारित की नगी है। इस धनतारि में यहन पर आने वाले सभी जा। शमितित होंगे। इसके अनुसार एक पाएन पर एक गाह से अन्तर्गत फ. 20135.50 से अधिक धमश्राति किसी भी दशा में व्यथ नहीं भी व्याएमी। किसाए पर सिये गए वाहन भी पासित दूरी भी गणना आवंदित परियोजना के कार्याजय से की जाएरी। एंच शर्ती एवं प्रतिकंधी की जानकारी कार्यालय से की जा शकती है। प्रश्ताय स्वीकृति के पश्चात प्रतिकंप एवं सती कर अनुक्ता करना शोगा। मुगतान में निवनानुसार आंधवन की कंटीती भी की आएगी, इसके परवात शेष धनशीं। विक खाते के माध्यम से भूगेतान की जायेगी।

करा. निर्देशालक द्वारा निर्देशित शर्टी व प्रतिकंती के कार्तेन इच्छूक बाइन व्यामी द्वारा निर्देशित प्रारम पर पर प्रति किमी तथा अधिकतम पालन यूरी प्रति माह अधिना कर गुरुवन्द प्रश्तान व्यक्ष के समस्त अवश्यक प्रपत्ने की रुपन्द धानीय एवं स्वप्नमाणित प्रथम प्रतिमी सहित दिनांक 11 जून 2018 को समा प्राप्त 11:00 गरे से 01:00 गरे अपरान्त तक विकास अवन स्थित अवोह्यतालये कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त कोटेशम/निवेदा महित समिति सं समांह चर्ती दिन खोजा जाएगा। चनत तिथि को यहन श्वामी उपनिधत रह सकते हैं इसकी शुक्रक अलग में नहीं दी खाएगी। अपूर्ण एवं अध्यानीय शंतरनक वाले प्रमताब मान्य नहीं होंगे। भोटेशन / निविध्य किना किनों। कारण बहाए जिला भार्यक्रम अधिकारी द्वारा निरश्त किया जा www.ft.c

(Sami madiner affamal)

SHIP OF

हाइटिक तरीकों से अवैध निर्माण पर नजर रखेगा केडीए

Minneye i

di arks aprillest un mali E. pris frontiscom us promise areas are fing if inflant and under undefinal और अभीन निर्माण नहीं तो प्रशांक लिए आला ने नेपारिए की FATSign Floor of Fig. eyese the fat spream it author Freght

नेवीर एकन्यन सीन्य अपनात ने साम्य कि अनेन Bauler bach ik free keste lifterege ik ween it et क्षात और प्रोत्रक प्रकारिका। पूर्वी प्रतिक कि मानवम की तह मानवस Name verlies for once he force site it facult oppose if a पुत्र अनुवानी बार चीरिया सान्यापत्र बताई बतावर्गिका विश्वति भो विश्वकर्तमाः प्रवासन्त ने बीत पर वर्णनी भी मेरीनवहर plea share leght on units when he family many endret if wh & ods Sanet sellers in & ; Sanet under ध्वानी पड़ी हैं। विशेशकार प्रथित को ब्यानारों पर प्रश्नीक भारते को बोक्तरने के कबता तैया कर तीने। सेन यहां कर र्वित राजीभी को संशितवहर हमिन लेकर उसने के बाद में prime with a the rost in these was very finder goat a प्राप्ता भौतिक प्राप्तात कार्याचे । तमे विश्वीत का चीर राम्बर प्राप्त है से भोड़ बार पहीं लेकिन किया अनुबार रिप्यान Form give its proved often wer life; didyrapic pilon diffe के लिए केप्रीत मुक्तन की की बाद लेखा । सुनल से प्रकार share of one in mail free school for the raffit it शहर के हो हो जिसीची पर जबर एक्ट्रेस उपर प्रदेश सरकार aret it felids unliv workfelt wit tripes aft shows upe from \$1 ps worldfelf are unsert forces grow than frontiurm abds

Place :- Kanpur Date:- 28.05.2018